



कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी

## प्रेस नोट

दिनांक 19.07.2021

### खोये हुए कुल 17 अदद मोबाइल (रेडमी कम्पनी)

### थाना मण्डुवाडीह पुलिस टीम द्वारा बरामद

पुलिस आयुक्त वाराणसी के गुमशुदा व्यक्तियों व गुम सम्पत्तियों की बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन के निर्देशन में आज दिनांक 19.07.21 को थाना मण्डुवाडीह पुलिस टीम द्वारा गुम हुए कुल 17 अदद मोबाइल बरामद कर उनके स्वामी को सुपुर्द किया गया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 25.02.2021 को श्री आशुतोष कुमार श्रीवास्तव पुत्र श्री गोपाल नारायण श्रीवास्तव निवासी शिवदासपुर बंशीधर का बगीचा थाना मण्डुवाडीह, वाराणसी के द्वारा थाना मण्डुवाडीह पर लिखित तहरीर दी गयी कि मेरे रेडमी कम्पनी के 20 अदद मोबाइल फोन वाहन संख्या UP 65 HT 9756 से ले जाते समय कहीं गिर गया है जो काफी तलाश करने के बाद भी नहीं मिले। उक्त मामले में थाना मण्डुवाडीह में विधिक कार्यवाही करते हुए गुमशुदगी दर्ज की गयी और उच्चाधिकारियों को सूचना दी गयी। मोबाइलों की बरामदगी हेतु सहायक पुलिस आयुक्त कैन्ट श्री अभिमन्यु मांगलिक के पर्यवेक्षण में एक टीम गठित की गयी। उक्त टीम के अथक प्रयास से तथा इलेक्ट्रानिक व धरातलीय सर्विलांस टीम की मदद से गुम हुए मोबाइलों में से कुल 17 अदद मोबाइल जनपद प्रयागराज, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ से बरामद करने में सफलता प्राप्त हुई। जिसकी कीमत लगभग 2 लाख रुपये है। बरामदशुदा मोबाइलों को पुलिस टीम द्वारा उनके स्वामी श्री आशुतोष कुमार श्रीवास्तव को बुलाकर सुपुर्द किया गया। गुम हुए मोबाइलों को प्राप्त कर श्री आशुतोष कुमार श्रीवास्तव का चेहरा खिल गया तथा उनके द्वारा पुलिस टीम की भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी। अभी 03 अदद मोबाइलों की बरामदगी शेष है, जिसके लिए पुलिस टीम प्रयासरत है।

### बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. प्र.नि. परशुराम त्रिपाठी प्रभारी थाना मण्डुवाडीह कमिश्नरेट वाराणसी।
2. उ0नि0 अश्वनी कुमार राय थाना मण्डुवाडीह कमिश्नरेट वाराणसी।
3. का0 रामानन्द, थाना मण्डुवाडीह कमिश्नरेट वाराणसी।
4. का0 मोहित मीणा थाना मण्डुवाडीह कमिश्नरेट वाराणसी।

सोशल मीडिया सेल  
पुलिस उपायुक्त  
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी